

सत्रीय कार्य पुस्तिका

विज्ञान में स्नातक उपाधि कार्यक्रम (बी.एससी.) में ऐच्छिक पाठ्यक्रम

कोशिका जैविकी

1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक वैध

सत्रांत परीक्षा के लिए फार्म भरने से पहले सत्रीय कार्य
जमा करना अनिवार्य है।

कृपया ध्यान दें

- बी.एससी. कार्यक्रम में ऐच्छिक पाठ्यक्रम चार विषयों – रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित और जीव विज्ञान – में उपलब्ध हैं। ऐच्छिक पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट 56 या 64 कम से कम दो और अधिकतम चार विषयों, में से हो सकते हैं।
- आपके द्वारा चुने गए किसी भी विषय में आपको कम से कम 8 क्रेडिट के ऐच्छिक पाठ्यक्रम लेने होंगे। किसी भी विषय में आप अधिक से अधिक 48 क्रेडिट के ऐच्छिक पाठ्यक्रम ले सकते हैं।
- आप भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान के ऐच्छिक पाठ्यक्रमों के जितने कुल क्रेडिट लेते हैं, उनमें से कम से कम 25 प्रतिशत प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के होने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप इन तीन विषयों में कुल 64 क्रेडिट के पाठ्यक्रम लेते हैं, तो इनमें से कम से कम 16 क्रेडिट प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के होने चाहिए।
- किसी पाठ्यक्रम में पंजीकरण कराए बिना आप उसकी सत्रांत परीक्षा में नहीं बैठ सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पाठ्यक्रम का परीक्षाफल रोक दिया जाएगा और इसका दायित्व भी आप पर ही होगा।



विज्ञान विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110 068

(2022)

प्रिय विद्यार्थी,

हम उम्मीद करते हैं कि रनातक उपाधि कार्यक्रम में अपनायी गयी मूल्यांकन पद्धति से आप भली-भांति परिचित हैं। आपके नामांकन के बाद हमने आपको ऐच्छिक पाठ्यक्रम की एक कार्यक्रम दर्शिका भेजी थी। उसमें सत्रीय कार्य से संबंधित जो भाग हैं उसे कृपया दुबारा पढ़ लें। जैसा कि आप जानते हैं निरन्तर मूल्यांकन के लिए 30% अंक निर्धारित किये गये हैं। इसके लिए आपको एक **सत्रीय कार्य करना होगा।** यह सत्रीय कार्य इस पुस्तिका में शामिल है।

सत्रीय कार्य से संबंधित निर्देश

इससे पहले कि आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखें, निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

- 1) अपनी उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर निम्नलिखित प्रारूप के आधार पर विवरण लिखें।

नामांकन संख्या :

नाम :

पता :

.....

पाठ्यक्रम संख्या :

पाठ्यक्रम शीर्षक :

सत्रीय कार्य संख्या :

अध्ययन केंद्र :

दिनांक :

कार्य के सही और शीघ्र मूल्यांकन के लिए दिये गये प्रारूप का सही अनुसरण करें।

- 2) अपना उत्तर लिखने के लिए फुलस्कैप कागज का इस्तेमाल करें, जो ज्यादा पतला न हो।
- 3) प्रत्येक कागज पर बांयें, ऊपर और नीचे 4 से. मी. की जगह छोड़ें।
- 4) आपके उत्तर स्पष्ट होने चाहिए।
- 5) प्रश्नों के हल लिखते समय, स्पष्ट संकेतों द्वारा बताएं कि किस प्रश्न का कौनसा भाग हल किया जा रहा है।
- 6) यह सत्रीय कार्य 1 जनवरी, 2022 से लेकर 31 दिसम्बर, 2022 तक वैध है। इस सत्रीय कार्य पुस्तिका के मिलने के 12 हफ्तों के अन्दर ही सत्रीय कार्य पूरा करने की कोशिश कीजिए, ताकि सत्रीय कार्य का एक शिक्षण साधन की तरह उपयोग हो सके। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होनें वाली उत्तर पुस्तिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 7) परीक्षा फार्म भरने से पहले सत्रीय कार्य करना अनिवार्य है।

अपनी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी ज़रूर रखिए।

शुभकामनाओं के साथ।

सत्रीय कार्य
(अध्यापक जांच सत्रीय कार्य)
कोशिका जैविकी

पाठ्यक्रम कोड : LSE-01
सत्रीय कार्य कोड : LSE-01/TMA/2022
कुल अंक : 100

-
1. निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए : (2½×4=10)
- i) माइटोकॉन्फ़िया और अंतद्रव्यी जालिका
 - ii) ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शिकी और क्रमवीक्षण इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शिकी
 - iii) समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन
 - iv) स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक
2. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए : (2½×4=10)
- i) प्लैज़मोडेस्मेटा
 - ii) तंबाकू मोज़ेक विषाणु (वायरस)
 - iii) वहन अणु निरोधक
 - iv) आबंध के प्रकार
3. बहूदण्णुओं को उनके आकार, आवेश, विलेयता और आणविक बंधुता के आधार पर अलग करने के तरीकों पर चर्चा कीजिए। (10)
4. आकसीकरणी फ़ास्फीरिलेशन और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के क्रिया विधि पर चर्चा कीजिए। (10)
5. क) उपयुक्त उदाहरणों के साथ एंजाइम को वर्गीकृत कीजिए। (5)
- ख) एक प्रेरक के रूप में लैक्टोज़ की अनुपस्थिति और उपस्थिति में लैक ऑपेरॉन के नियमन की व्याख्या कीजिए। (5)
6. ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया में शामिल प्रमुख चरणों की व्याख्या कीजिए। (10)
7. असीमकेंद्रकी जीवों (प्रोकैरियोट) में प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। (10)
8. आणविक स्तर पर डीएनए पुनर्संयोजन कैसे काम करता है? (10)
9. संकेतन में cAMP का दूसरे संदेशवाहक के रूप में कार्य का वर्णन कीजिए। (10)
10. जंतुओं में विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतकों का सचित्र वर्णन कीजिए। (10)